



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1021 राँची, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

2 दिसम्बर, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र0-05/2019 का0- 9611-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 3708 दिनांक- 30.11.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में, उक्त पत्र के साथ अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित, विधानसभा आम निर्वाचन, 2019 के लिये सेक्टर पदाधिकारी में प्रतिनियुक्त 267 पदाधिकारियों/कर्मियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत मतदान दिवस के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रेम कुमार राय,
सरकार के अवर सचिव।
